

दिल्ली विश्वविद्यालय

37



UNIVERSITY OF DELHI

प्रमाणित किया जाता है कि जून, 2014 में शोध प्रबंध स्वीकृत हो जाने के उपरान्त

'अरविन्दर कौर'

को 2015 के दीक्षांत-समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या-वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई।

विभाग: हिन्दी


This is to certify that on approval of the thesis in June, 2014

'Arvinder Kaur'

qualified for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) of this University. The said Degree was conferred upon him/her at the Convocation held in 2015.


Department: Hindi





कुलसचिव
दिल्ली विश्वविद्यालय
Registrar
University of Delhi

दिल्ली, दिनांक 30 मई, 2015
Delhi, Dated the 30th May, 2015



कुलपति
दिल्ली विश्वविद्यालय
Vice Chancellor
University of Delhi

नामांकन संख्या
Enrol. No. CC -98 -8439





शिवाजी कॉलेज

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

Shivaji College

(University of Delhi)

NAAC ACCREDITED "A" GRADE COLLEGE



संदर्भ सं./Ref. No. *SH/Admn/2062/17*

दिनांक/Dated *04/08/17*

Dr. Arvinder Kaur,
324, Church Gali, Asola,
Fatehpuri Beri,
New Delhi - 110074

Dr. Arvinder Kaur,

I am glad to inform you that you have been appointed as Lecturer/ Assistant Professor in the Department of Hindi purely on Ad-hoc basis (Category: - SC) in this College on the following terms and conditions: -

1. You will receive an initial pay in the scale of Rs. 15600-39100 + 6000 AGP (as per With Pay Commission) + Allowances at the rates and according to the Rules in force in the University of Delhi from time to time.
2. In all matter relating to leave conditions or service, you will be governed by the ordinances and the Rules in force in the University of Delhi from time to time.
3. The appointment is further subject to the verification of your qualification/ SC/ ST/ OBC & PH etc. certificates.
4. You are further advised to contact the Section Officer (Accounts) in the College for the purpose of opening a Saving Bank Account at the Central Bank of India, Shivaji College Branch, Raja Garden, New Delhi - 110027.
5. For the purpose of claiming House Rent Allowances exemption, please apply for the same to the Section Officer (Accounts) and submit Rent Receipt/ Application within 15 days from the date of your joining in the College.
6. The appointment is purely on adhoc basis from **04.08.2017 to 02.12.2017** or till the appointment of permanent incumbent, whichever is earlier. **This appointment may be terminated with a notice of 24 hours from either side.**

If the offer of appointment under the above terms and conditions is acceptable to you, please intimate your acceptance of the same and submit your joining report to the undersigned duly countersigned by the Teacher-In-charge/ Section-In-Charge.

Yours truly

Dr. Shashi Nijhawan
Principal

Copy to:

1. Section Officer (Admn.)
2. Section Officer (Accounts)
3. Senior Personal Assistant
4. Librarian
5. Personal File